

महादलित टोले भी झूमेंगे राष्ट्रीय पर्व में पटना, जागरण ब्यूरो : अपनी ही समस्याओं को लेकर उलझे रहने वाले महादलित अब राष्ट्रीय पर्व पर झूमेंगे। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार ने अपने खर्च पर हर महादलित टोले में झंडा फहराने, समारोह आयोजित कराने का निर्णय किया है। टोले के ही किसी बुजुर्ग को झंडा फहराने के लिए कहा जायेगा। इस मौके पर बच्चों के बीच टाफी, मिठाइयां भी बंटेंगी। बच्चों के बीच छोटे स्तर पर खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। बिहार दिवस के मौके पर भी विशेष समारोह आयोजित होंगे। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि महादलित समुदाय के हर गांव में ऐसे सार्वजनिक स्थल का चयन किया जाये जहां प्रातः 8 बजे समारोह का आयोजन किया जायेगा। समारोह में राष्ट्रीय गान के साथ स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के बारे में सरकारी शिक्षक जानकारी देंगे। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि एक-एक सरकारी कर्मी चाहे वे शिक्षक हों या प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सेवक, जन सेवक, कर्मचारी जैसे क्षेत्रीय कर्मी उन्हें समारोह के लिए विशेष पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जायेगा। जिन्हें समारोह में मौजूद रहना होगा और सारी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करना होगा। समारोह के जरिये ग्रामीणों को 15 अगस्त से लागू होने वाले लोक सेवाओं का अधिकार कानून का कैसे फायदा उठाया जा सकता है जानकारी दी जायेगी।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
 इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
 कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
 कॉपीराइट / IP नीति